

AI-1256 CV-19
B.Com. (Part-III)
Term End Examination, MAR.-APR. 2020-21
Paper-I Indirect Taxes

[Maximum Marks: 75]

Time: - Three Hours]

नोट : सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
Note: Answer all question. All question carry equal marks.

इकाई / UNIT-I

1. मुक्त आयात एवं प्रतिबंधात्मक आयात से क्या आशय है? भारत में मुक्त आयात एवं प्रतिबंधित आयात की मदों का विवेचन कीजिए।
 What do you mean by "Free import and Restricted Import"? Discuss the items covered under free import and restricted import in India.

OR/अथवा

भारत में आयात की गयी कुछ वस्तुओं के संबंध में निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध है— Following particulars are available in respect of certain goods imported into India-

- (1) माल का मूल्य 30,000 डॉलर। CIF Price : 30,000 US\$
- (2) पैकिंग व्यय 600 डॉलर, दुलाई व्यय 300 डॉलर। Packing Expenses 600 Dollars, Haulage 300 Dollars.
- (3) विनिमय दर रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित 1 डॉलर = 60 रु.। Exchange rate : Notified by RBI ₹ 60 = 1 US\$.
- (4) विनिमय दर केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा अधिसूचित 1 डॉलर = 58 रु. सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत कर निर्धारण मूल्य की गणना कीजिए। Notified by CBEC ₹ 58 = 1 US\$. Compute the assessable value as per the Customs Act.

इकाई / UNIT-II

2. छत्तीसगढ़ आबकारी शुल्क अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए।
 Give an outline of main Provision of Chhattisgarh Eycise Act.

OR/अथवा

एक भण्डार गृह से माह मई 2019 में निम्नलिखित मादक पदार्थ निर्गमित किये गये—The following intoxicants issued from a Warehouse in the month of May 2019-

	फुफ लीटर
1. देशी शराब Country liquor	1,806
(अ) मसालेदार (25 यू.पी.) Spiced (25 U.P.)	3,704
(ब) सादी (50 यू.पी.) Spiced (50 U.P.)	1,194
(स) रासी (70 यू.पी.) Rassi (70 U.P.)	
2. 42 % से अधिक रिप्रट वाली विदेशी शराब। Foreign liquor containing spirit more than 42% (Ex-factory rate ₹ 980 per case)	285
(अ) सीमा सुरक्षा बल के केन्टीन को। B.S.F. canteen	1,136
(ब) ठेकेदारों को। Contractors.	
3. ब्रॉण्डी एवं व्हिस्की। (फैक्ट्री द्वार मूल्य 590 रु. प्रति केस) Brandy and Whisky.	2,950
(अ) विदेशी शराब ठेकेदारों को। Foreign Liquor contractors.	704
(ब) इण्डो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस केन्टीन को। Indo-Tibetan Border Police Canteen	
4. कॉर्डियल एवं मिश्रण। (फैक्ट्री द्वार मूल्य 700 रु. प्रति केस) Cordial and Mixtures. (Ex-factory rate ₹ 700 per case)	1,403
(अ) मिलिट्री केन्टीन को। Military canteen.	663
(ब) अन्य को। Others	
Calculate Excise Duty collected.	

इकाई / UNIT-III

3. भारत में माल एवं सेवाकर (GST) की संरचना समझाइए एवं इसका वर्गीकरण दीजिए।
 Discuss the structure of Givis and services tax in India and mention its classification.

OR/अथवा

माल एवं सेवाकर की अवधारणा समझाइए। जी.एस.टी. लागू किये जाने की आवश्यकता बताइए।
 Discuss the concept of Goods and services tax (GST) Point out reasons for adaption of GST.

इकाई / UNIT-IV

4. अभिज्ञान इन्टरप्राइजेस ने 18 जून 2020 को निम्नलिखित वाहनों की पूर्ति की— Abhigyan Enterprises supplied the following vehicles on 18th June 2020-
- (1) दो मोटर कारें - मूल्य 5,30,800 रु. प्रति कार। Two Motor cars - Price ₹ 5,30,800 each.
 - (2) पाँच मोटर साइकल्स - मूल्य 68,700 रु. प्रति। Five Motor cars - Price ₹ 68,700 each.
 - (3) आठ साइकिलें - मूल्य 12,500 रु. प्रति साइकिल। Eight cycle - Price ₹ 12,500 each.
 - (4) तीन मिनी ट्रक - मूल्य 3,85,000 रु. प्रति ट्रक। Three Mini trucks - Price ₹ 3,85,000 each.
 - (5) वाहनों के पार्ट्स एवं एक्सेसरीज 72,400 रु. Parts and accessories of vehicles ₹ 72,400

P.T.O.

मोटर वाहनों पर कर की दर 28% एवं साइकिलों पर 12% है। देय जीएसटी की राशि बताइए। कर की राशि अलग से चार्ज की गयी। (Tax rate on motor vehicles 28% and on cycles 12%. Find out GST payable. Tax was charged separately.)

OR/अथवा

जी.एस.टी. के अर्न्तगत माल एवं सेवाओं की पूर्ति के स्थान निर्धारण संन्वनी प्रावधान समझाइए।

Discuss the Previsious of GST relating to determination of Place of Goods and Survices Supplied.

इकाई/UNIT-V

5. विवरणी से क्या आशय है? जी.एस.टी. से संबंधित विवरणीयों के प्रकार समझाइए – What is mean by Return ? Discuss variuss types of Returs under GST.

OR/अथवा

मि.डी. आसिफ जो कि एक फैशन डिजाइनर एवं टेलर हैं, की प्राप्तियों निम्नांकित हैं—

Mr. D. Aasif is a fashion designer and tailer preparing patterns of customes, apparels garments and clothing accessories. He receives the following amounts for services rendered-

	रूपये
(1) डिजाइन का विचार एवं परिकल्पना शुल्क। Conceptualisation of design charges	2,32,300
(2) सामग्री चुनाव के लिए परामर्शी सेवा शुल्क। Consulting charge for selection of materials.	25,900
(3) सादे कपड़े पर पैटर्न तैयार करने का चार्ज। Preparation of patterns.	1,10,800
(4) अन्तिम रूप से चुने गए फैब्रिक्स का मूल्य। Value of final fabrics.	1,37,300
(5) परिधान के लिए चुने हुए कपड़ों पर परिधान की सिलाई एम्ब्रायडरी का शुल्क। Making of garments as per need of the client by stiching/ embroidery etc. on final fabrics.	62,700
(6) गारमेण्ट एक्सेसरीज का परिधान में प्रयोग। Garment accessory attached to the final Designer Garment.	72,300
(7) मि. आसिफ ने एक परिधान स्वयं के पुत्र के विवाह के लिए भी बनाया, जिसमें 88,700 रु. की लागत आई। Mr. Aasif prepared a garment for his son's marriage by incurring an amount of ₹ 88,700.	88,700.

'फैशन डिजाइनर सेवा' श्रेणी में करयोग्य सेवा का मूल्यांकन कीजिए। फैब्रिक एवं सिलाई के लिए 5%, फैशन डिजाइनिंग के लिए 18% की दर से जीएसटी अलग से वसूला गया। Determine the value of taxable services provided by Mr. Aasif to its clients. GST @ 5% for fabric and stiching and @ 18% on fashion designing was collected separately.

-----000-----